



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1946 (श०)

(सं० पटना 802) पटना, मंगलवार, 13 अगस्त 2024

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

9 अगस्त 2024

सं० 4/मं०सं०का०का०गठन-01/11(पार्ट-2)-649—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-383, दिनांक-18.11.2016 में निहित प्रावधान के आलोक में खगड़िया जिला के जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को निम्न रूप से नामित किया जाता है:-

जिला-खगड़िया

क्र०	पदधारक का विवरण	पद
1.	श्री महेश्वर हजारी, माननीय मंत्री, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री बब्लू मंडल, डी०ए०भी स्कूल रोड, चित्रगुप्तनगर जिला-खगड़िया, मो०-9430042326	उपाध्यक्ष
3	श्री शत्रुघ्न भगत, नगर परिषद रोड, वार्ड नं०-18, जिला-खगड़िया, मो०-9430043286	उपाध्यक्ष
4.	श्री पंकज कुमार पटेल, गुलाब नगर, सन्धौली, खगड़िया, मो०-9973052792	सदस्य
5.	श्री ध्रुव कुमार शर्मा, ग्राम+पो०- बलहों, परवत्ता, खगड़िया, मो०-9431645012	सदस्य
6.	श्री अनील कुमार सिंह, ग्राम+पो०- तेलिहार बेलदौर, खगड़िया, मो०-9973630079	सदस्य
7.	श्रीमती साधना देवी, ग्राम+पो०- हथवन, मो०-9431481406, 9123268698	सदस्य
8.	श्रीमती नीलम वर्मा, जय प्रकाश नगर, वार्ड सं०- 21, खगड़िया, मो०-9472689133, 9123268698	सदस्य

क्र०	पदधारक का विवरण	पद
9.	श्री ललित चौधरी, ग्राम+पो0-रहीमपुर, खगड़िया, मो0-6204416844	सदस्य
10.	श्री चन्देश्वरी राम, ग्राम- बंगलिया, पो0- रोहयार, मानसी, खगड़िया, मो0-9931482119	सदस्य
11.	श्री योगेन्द्र सदा, ग्राम+पो0- सोनिहार अलौली, खगड़िया, मो0-7366037487	सदस्य
12.	मो0 साहब उद्दीन, जय प्रकाश नगर, वार्ड- 18 खगड़िया, मो0-9431417535, 8298130609	सदस्य
13.	मो0 फिरदोस आलम, ग्राम+पो0- माड़र, खगड़िया, मो0-7903835396	सदस्य
14.	श्री इंदु भूषण कुशवाहा, ग्राम-सबलपुर, पो0-मारद, जिला-खगड़िया, मो0-8383087030	सदस्य
15.	श्री सुनील चौधरी, ग्राम-चौधरी टोला, पो0-रेहमपुर नियर काली स्थान, जिला-खगड़िया, मो0-9431417966	सदस्य
16.	श्री अश्वनी कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना-चौतन, जिला-खगड़िया मो0-9430003515	सदस्य
17.	श्री सुनील कुमार, ग्राम+पो0-पंसत्वा, थाना-बेलदौर, वार्ड नं0-11 जिला-खगड़िया मो0-9155675182	सदस्य
18.	श्री विनय चौरसिया, ग्राम-मलपा, थाना-चौथन, पो0-भुतौली मालपा, जिला-खगड़िया मो0-9471211001	सदस्य
19.	श्रीमती वन्दना कुमारी, ग्राम+पो0-फुलवरिया, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया मो0-9534622232	सदस्य
20.	श्री कुलदीप आनंद, मुर्गियाचक, पो0+थाना-खगड़िया वार्ड नं0-17, जिला-खगड़िया मो0-9534440048	सदस्य
21.	श्री ज्ञानदेव कुशवाहा, ग्राम-कर्मा, थाना+पो0-प्रवखा, वार्ड नं0-11 जिला-खगड़िया मो0-7903349983	सदस्य
22.	श्री राकेश पासवान, ग्राम-सवलपुर, पो0-मरार, थाना-मोरकाही, जिला-खगड़िया, मो0-8877701930	सदस्य
23.	श्री सरोज सदा, ग्राम+पो0-बछौती, वार्ड नं0-01 थाना-मोरकाही, जिला-खगड़िया, मो0-8210902131	सदस्य
24.	श्री कृष्ण कुमार, सोभा सदन, वार्ड नं0-29 चित्रगुप्त नगर खगड़िया नगर, खगड़िया, मो0-6200650858	सदस्य
25.	श्री शिवराज यादव, बलुअही, वार्ड नं0-31 नगर परिषद खगड़िया, जिला-खगड़िया मो0-9709705120	सदस्य

2. शेष रिक्तियों पर मनोनयन बाद में किया जायेगा।

3. जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं अन्य सदस्य विभागीय संकल्प संख्या-383 दिनांक 18.11.2016 के निहित प्रावधान के अनुसार निम्नवत् होंगे:-

- | | | |
|-------|---|--------------|
| (i) | जिला के प्रभारी मंत्री | - अध्यक्ष |
| (ii) | जिला के लोक सभा सदस्य | - पदेन सदस्य |
| (iii) | जिला के वैसे राज्य सभा के सदस्य जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो | - पदेन सदस्य |
| (vi) | जिला के विधान सभा के सभी सदस्य | - पदेन सदस्य |
| (v) | जिला के वैसे विधान परिषद् के सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो | - पदेन सदस्य |

- (vi) जिला परिषद् के अध्यक्ष – पदेन सदस्य
- (vii) जिला नगर निगम के महापौर/नगर परिषद्/नगर पंचायत के अध्यक्ष – पदेन सदस्य
- (viii) जिला पदाधिकारी – सदस्य सचिव
4. इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला में अवस्थित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा नाबार्ड के डी०डी०एम० पदेन सदस्य होंगे।
5. विभागीय संकल्प सं०-383 दिनांक-18.11.2016 के आलोक में समिति के मनोनीत/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निशीथ वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 802-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>